



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380]

नई दिल्ली, मंगलवार दिनांक 4, 1979/अग्राहायण 13,, 1901

No. 380] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 1979/AGRAHAYANA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1979

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०का०नि० 663(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मध्य संख्यांक 15क की उपमध्य (1) के अन्तर्गत आते हैं और ऐसे कच्चे नेफ्था या उससे व्युत्पन्न किसी रसायन, से, जिस पर उचित उत्पाद-शुल्क पहले ही संदत्त किया जा चुका है, विनिर्मित हैं, उस पर उद्घटनीय उतने उत्पादशुल्क से, जो उसके स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है ।

सारणी

क्रम संख्यांक	विवरण	शुल्क-दर
1	2	3
1.	निम्न वनस्पत पॉलिएथिलीन, उच्च घनत्व पॉलिएथिलीन और पॉलिप्रोपिलीन	27 प्रतिशत मूल्यानुसार

2. पॉलिबाइनिल क्लोराइड

33 प्रतिशत मूल्यानुसार

2. यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1980 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 302/79-के०उ०/फा०सं० 354/13/79-टी०भार० यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, 4th December, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 663 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts artificial or synthetic resins and plastic materials specified in column (2) of the Table below, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured from raw naphtha or any chemical derived therefrom, on which the appropriate amount of duty of excise has already been paid, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty of excise specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

The Table

Sl. No.	Description	Rate of Duty
(1)	(2)	(3)
1.	Low-density polyethylene, high-density polyethylene and polypropylene.	27 per cent. ad valorem.
2.	Polyvinyl chloride	33 per cent ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of November, 1980.

[No. 302/79—CE/F. No. 354/13/79-TRU.]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 664(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 62/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 में और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, (पालिवाइजिल क्लोराइड रेजिन को छोड़कर) कोष्ठक और शब्दों का ताप किया जाएगा।

[सं० 303/79—के०उ०/का० सं० 354/13/79-टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 664(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, namely:—

In the said notification, the brackets and words, "(except polyvinyl chloride resins)" shall be omitted.

[No. 303/79-CE/F. No. 354/13/79-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 665(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 203/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 4 जून, 1979 को विधिवत करती है।

[सं० 304/79—के०उ०/का० सं० 354/13/79—टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 203/79-Central Excises, dated the 4th June, 1979.

[No. 304/79-CE/F. No. 354/13/79-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 666(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 61/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 को अधिकान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधि-

नियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 14कक की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले तथा कच्चे नेफ्था से व्युत्पन्न ऐसे बेन्जोल से जिन पर उचित उत्पाद शुल्क पहले ही संवत् किया जा चुका है, विनिर्मित कैप्रोलेक्टम को, ऐसे कैप्रोलेक्टम पर उद्ग्रहणीय उनसे उत्पाद शुल्क से जो मूल्यानुसार तेरह प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1980 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 305/79-के०उ०/का० सं० 354/13/79-टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 666(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 61/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, the Central Government hereby exempts caprolactam, falling under sub-item (2) of Item No. 14AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured from benzene (derived from raw naphtha), on which the appropriate amount of duty of excise has already been paid, from so much of the duty of excise leviable on such caprolactam as is in excess of twenty-three per cent. ad valorem.

2. This notification shall be in force up to and inclusive of the 30th day of November, 1980.

[No. 305/79-CE/F. No. 354/13/79-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 667(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) के खण्ड 32 के उपखण्ड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14कक की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले तथा कच्चे नेफ्था से व्युत्पन्न, ऐसे बेन्जोल से जिन पर उचित उत्पाद-शुल्क पहले ही संवत् किया जा चुका है, विनिर्मित कैप्रोलेक्टम को, वित्त अधिनियम 1979 (1979 का 21) की धारा 32 का उपधारा (1) के अर्थात् उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[सं० 306/79-के०उ०/का० सं० 354/13/79-टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 667(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government hereby exempts caprolactam, falling under sub-item (2) of Item No. 14AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured from benzene (derived from raw naphtha), on which the appropriate amount of duty of excise has already been paid, from the whole of the special duty of excise leviable on such caprolactam under sub-section (1) of section 32 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979).

[No. 306/79-CE/F. No. 354/13/79-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 668(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) के खण्ड 32 के उपखण्ड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14कक के अधीन आने वाली और कच्चे नेफ्था या उससे व्युत्पन्न किसी रसायन से, जिस पर उचित उत्पाद-शुल्क पहले ही संवत् किया जा चुका है, विनिर्मित पालोडुटाडाइन रखर को, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[सं० 307/79-के०उ०/का० सं० 354/13/79-टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 668(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979) the Central Government hereby exempts polybutadiene rubber, falling under Item No. 16AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured from raw naphtha or any chemical derived therefrom, on which the appropriate amount of duty of excise has already been paid, from the whole of the special duty of excise leviable on such polybutadiene rubber under sub-section (1) of section 32 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979).

[No. 307/79-CE/F. No. 354/13/79-TRU]

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

सांफांनि० 669 (प्र)—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद संख्यांक 68 के अर्थात् आने वाले और कच्चे तैयार या उगरे खुत्पथ किर्मा रगान से, जिस पर उचित उत्पाद-शुल्क पहले ही भुगत किया जा चुका है, विनिर्मित शैलिक एन-हाइड्राइड को, ऐसे शैलिक एनहाइड्राइड पर उद्ग्रहणीय जतने उत्पाद-शुल्क से, जो मूलानुसार उसके छह प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1980 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 307/79-के०उ०/फा०न० 354/13/79-ट्रि०आर० यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts phthalic anhydride, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured from raw naphtha or any chemical derived therefrom, on which the appropriate amount of duty of excise has already been paid,

from so much of the duty of excise leviable on such phthalic anhydride as is in excess of six per cent. ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of November, 1980.

[No. 308/79-CE/F. No. 354/13/79-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सांफांनि० 670 (प्र)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद संख्यांक 61 के अर्थात् आने वाले और हस्तचालित मशीनों की सहायता से विनिर्मित स्विचों, प्लगों और नाकेटों को, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रांगणार्थ, "हस्तचालित मशीनों" से वे मशीनें अभिप्रेत हैं, जिनमें ऐसे विनिर्माण की प्रक्रिया में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके अन्तर्गत वे मशीनें भी हैं, जिनमें शक्ति का प्रयोग केवल संभव पूर्ण के तापन के लिए किया जाता है।

[सं० 309/79-के०उ०/फा०न० 188/3/78-के०उ०-4]

टि०आर० रुस्तगी, अवर सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts switches, plugs and sockets falling under Item No. 61 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured with the aid of hand-operated machines, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Explanation : For the purposes of this notification, "hand-operated machines" means those machines in which no power is used in the process of such manufacture and includes those machines where power is used only for heating the moulding powder.

[No. 309/79-CE/F. No. 188/3/78-CX 4]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

